



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 24 नवंबर, 2023

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कर्मचारियों को नौकरी से नकाला

हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार ने "राज्य की सुरक्षा के लिये खतरा" बने चार कर्मचारियों को नौकरी से नकाल दिया।

- यह कार्य [संवधान के अनुच्छेद 311\(2\)\(c\)](#) के तहत किया गया है।
- [अनुच्छेद 311\(2\)](#) के अनुसार, **किसी भी सविलि सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया** जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें अधिकारी को उसके वरिद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा **उनआरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तसिंगत अवसर प्रदान किया गया है।**
- [अनुच्छेद 311\(2\)](#) के अपवाद:
 - **2(a)-** इसमें एक व्यक्तिको उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त करना, पद से हटाना अथवा उसकी रैंक में कमी करना शामिल है जिसके कारण उसे **आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है;** अथवा
 - **2 (b)-** जब किसी व्यक्तिको बर्खास्त करने अथवा पद से हटाने अथवा उसकी रैंक को कम करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि किसी कारण से जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, जिसि उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये; अथवा
 - **2 (c)-** जहाँ राष्ट्रपतिया राज्यपाल, जिसि स्तर का भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है **करिाज्य की सुरक्षा के हति में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।**

शहरों की डजिटल मैपिंग

भारत के मैपिंग इकोसिस्टम को बदलने की दशा में कदम उठाते हुए अग्रणी **3D मैपिंग कंपनी** जेनेसिस इंटरनेशनल ने देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मैपिंग प्राधिकरण, [भारतीय सर्वेक्षण विभाग \(SOI\)](#) के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- यह सहयोग '**3D डजिटल ट्वनि मैपिंग प्रोग्राम**' के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की मानचित्र सामग्री में क्रांतिलि सकती है।
- यह भारत की [राष्ट्रीय भू-स्थानिकि नीति 2022](#) के अनुरूप है, जो **भू-स्थानिकि डेटा में आत्मनिर्भरता** पर जोर देती है।
- यह पहल पहले से अनुपलब्ध डेटा प्रदान करेगी, जिसमें उच्च-सटीक **3D डेटा**, डजिटल टेरन मॉडल (DTM), डजिटल सरफेस मॉडल (DSM) और ऑर्थो इमेजरी (वरिपण को हटाकर सही की गई छवि) शामिल है।
- यह परियोजना **जेनेसिस के भारत के नौगम्य मानचित्रों** और उसके सेंसर समूह का लाभ उठाएगी। कंपनी सभी राज्यों में 902 स्टेशनों के **SOI के सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (Continuous Operating Reference System- CORS)** नेटवर्क से डेटासेट एक्सेस करेगी, जो वास्तविक समय, उच्च-सटीक पोजिशनिंग डेटा प्रदान करता है।

और पढ़ें... [राष्ट्रीय भू-स्थानिकि नीति 2022](#)

आयुर्वेद को बढ़ावा: AGNI पहल और मुख्यधारा अनुसंधान

आयुष मंत्रालय के तहत **केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Ayurveda Sciences- CCRAS)** ने [आयुर्वेद](#) के क्षेत्र में **साक्ष्य-आधारित प्रथाओं** और वैज्ञानिक मान्यता को बढ़ावा देने के लिये "**आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल**" (Ayurveda Gyan Naipunya Initiative- AGNI) शुरू की।

- AGNI आयुर्वेद **चिकित्सकों को विभिन्न रोगों में नवीन उपचारों और अनुभवों की रिपोर्ट** करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त CCRAS ने आयुर्वेद हस्तक्षेपों के माध्यम से समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रबंधन में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये पहले **SPARK, PG-STAR** तथा **SMART** जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।

और पढ़ें... [आयुर्वेद, SMART](#)

BDS आंदोलन

इजराइल-हमास संघर्ष ने एक बार फिर बहिष्कार, वनिविश और प्रतर्बिध (**Boycott, Divestment, and Sanctions- BDS**) आंदोलन को सुरखियों में ला दिया है, क्योंकि यह प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार का आग्रह करता है।

- 170 से अधिक फलिसितीनी समूहों के सहयोग से वर्ष 2005 में शुरू हुआ **बहिष्कार, वनिविश और प्रतर्बिध (BDS) आंदोलन** का उद्देश्य फलिसितीनी लोगों के अधिकारों के लिये वैश्विक समर्थन जुटाना है।
 - **दक्षिण अफ्रीका के सफल रंगभेद वरिधी आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिये इजरायल पर दबाव डालने हेतु** अहसिक तरीके खोजता है।
- यह इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, नयित्रण और उपनविशीकरण को समाप्त करने, फलिसितीनी नागरिकों के लिये समानता तथा **संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194** में नरिधारित फलिसितीनी शरणार्थियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दबाव डालने के लिये **अहसिक तरीकों** का उपयोग करता है।
 - प्रस्ताव में कहा गया है कि इच्छुक शरणार्थियों को अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिये और जो लोग वापस नहीं लौटना चाहते हैं उनकी संपत्ति का मुआवज़ा दिया जाना चाहिये।

और पढ़ें... **इजरायल-हमास संघर्ष और इसका वैश्विक प्रभाव**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-24-november,-2023>

